



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 वैशाख 1933 (श०)
(सं० पटना 173) पटना, बुधवार, 4 मई 2011

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

6 अप्रैल 2011

सं० सं०का०-1/वि०प०(नेता विरोधीदल/मु०सचे०)-07-10/2011-627—बिहार विधान परिषद, पटना के अधिसूचना संख्या-वि०प०अ०प्र०-213/2005-992 (1) दिनांक 18 मार्च 2011 के द्वारा सूचित किया है कि राष्ट्रीय जनता दल विधान मंडल के नेता माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्धिकी ने बिहार विधान परिषद में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य प्रो० गुलाम गौस को नेता, विरोधी दल एवं माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र प्रसाद को मुख्य सचेतक, मनोनीत की है। उपर्युक्त सूचना के आलोक में माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद ने मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्रदान करते हुए माननीय सदस्य प्रो० गुलाम गौस को नेता एवं माननीय सदस्य श्री रामचन्द्र प्रसाद को मुख्य सचेतक, मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त अधिसूचना के आलोक में बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वित्त एवं भत्ते) नियमावली 2006 के नियम-3 के प्रावधानों के तहत,

(क) प्रो० गुलाम गौस, नेता मुख्य विरोधी दल को दिनांक 18 मार्च 2011 के प्रभाव से मंत्री स्तर की सुविधाएं अनुमान्य होगी।

(ख) श्री रामचन्द्र प्रसाद, मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल को दिनांक 18 मार्च 2011 के प्रभाव से राज्य मंत्री स्तर की सुविधाएं अनुमान्य होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
नवनीत रंजन तिवारी,
विशेष कार्य पदाधिकारी—सह—उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 173-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>